



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 430]  
No. 430]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 29, 1983/आश्विन 7, 1905  
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 29, 1983/ASVINA 7, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय  
(औद्योगिक विकास विभाग)  
आदेश

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1983

का० आ० 693(प्र)/18कक/उ०वि०वि०प्र०/83 :—  
भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय के (समय-समय पर यथासंशोधित) आदेश सं० का० आ० 22(अ)/18कक/उ० वि० वि० अ०/73, तारीख 15 जनवरी, 1973 द्वारा श्री जानकी शुगर मिल्स एण्ड कम्पनी, दोड़वाला, जिला देहरादून (उत्तर प्रदेश) नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-कक की उपधारा (1) के अधीन 30 सितम्बर, 1983 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, अवधि के लिए ग्रहण किया गया था और उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था,

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकाहित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम, उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड के प्रबन्ध के अधीन 31 मार्च, 1984 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, छह मास की और अवधि के लिए बना रहे;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा-18-क की उपधारा (2) के परन्तुक के साथ पठित धारा 18कक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि ऊपर वर्णित आदेश 31 मार्च, 1984 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बना रहे।

[का० सं० 2(2)/80-सी यू एस]

ए० पी० सरवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 29th September, 1983

S.O. 693(E)/18AA/IDRA/83.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development No. S.O. 22(E)/18AA/IDRA/73, dated the 15th January, 1973 (as amended from time to time), the management of the industrial undertaking known as Shri Janki

Sugar Mills and Company, Doiwala, District Dehradun (Uttar Pradesh) was taken over under sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period upto and inclusive of 30th September, 1983 and the Uttar Pradesh State Sugar Corporation Limited was authorised to take over the management of the said industrial undertaking ;

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said industrial undertaking should continue under the management of the Uttar Pradesh State

Sugar Corporation Limited for a further period of six months upto and inclusive of 31st March, 1984 ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA read with the proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the Order mentioned above shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of 31st March, 1984.

[File No. 2(2)/80-CUS]  
A. P. SARWAN. Jt. Secy.